



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



*Duplicated*

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291]

No. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1979/आषाढ़ 25, 1901

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1979/ASADHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

क्र०आ० 408 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा लागू कोलियरी नियंत्रण अधिनियम, 1945 के खंड 3 और 4 के अनुसरण में, और भारत सरकार, इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के विभांक 24 जुलाई, 1967 के सा० आ० संख्या 2465 एवं ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के विभांक 1 अगस्त, 1975 के सा०आ० संख्या 408(ई) के अतिरिक्त में, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17-7-1979 को और उससे प्रभावी, नीचे सारणी I में दी गई श्रेणियाँ और वर्ग निर्धारित करती है जिनमें कोयले का वर्गीकरण किया जायेगा तथा नीचे सारणी II, III, IV, V और VI में से वे खान मुहाना कीमतें निर्धारित करती हैं जिन पर कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला अथवा कोक बेचा जा सकता है :-

सारणी—I

क्र० सं०	श्रेणी	वर्ग	वर्ग निर्दिष्ट
1	2	3	4
1, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित अकोककर कोयला	ए	बी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक
	बी०	सी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	सी०	डी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	डी०		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1	2	3	4
		ई०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		एफ०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		जी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
2. आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित अकोककर कोयला	—		ग्रेड निर्दिष्ट नहीं किया गया।
3. कोककर कोयला	इस्पात ग्रेड I		राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	इस्पात ग्रेड II		राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	बागरी ग्रेड I		राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	बागरी ग्रेड II		राख का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	बागरी ग्रेड III		राख का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	बागरी ग्रेड IV		राख का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।
4. अर्द्ध बीकली कोककर कोयला	अर्द्ध/बीकली कोककर I		राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	अर्द्ध/बीकली कोककर II		राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।

## नोट :—

1. कोककर कोयले ऐसे कोयले हैं जो कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोककर कोयले घोषित किये गये हैं, अथवा वे कोयले हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कोलियरी नियंत्रण अधिनियम, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन कोककर कोयला घोषित किया गया हो, अथवा घोषित किया जा सकता है।

2. "अर्द्ध कोककर कोयले" और "बीकली कोककर कोयले" ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन "मिश्रित कोयले" घोषित किया गया था, अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा "अर्द्ध-कोककर/बीकली कोककर कोयले" घोषित किया जा सकता है।

3. कोककर अथवा अर्द्ध-कोककर अथवा बीकली कोककर कोयलों के अलावा सभी कोयले अकोककर कोयले हैं।

4. "उपादेय ऊष्मा मूल्य" की परिभाषा निम्नलिखित फार्मूला में दी गई है :—

$$\text{एच०यू०} = 8800 - 138 \times (\text{ए०} + \text{एम०})$$

जबकि एच०यू० = एक किलोग्राम का कैलोरी के अनुसार उपादेय ऊष्मा मूल्य

ए० = प्रतिशत में राख का अंश

एम० = प्रतिशत में नमी का अंश

जिस कोयले में 2% से कम नमी हो, और वाष्पशील अंश 19% से कम हो उसके संबंध में उपादेय ऊष्मा मूल्य वह होगा जो उपर्युक्त विधि से निकाले गए सूत्र में मे, वाष्पशील अंश में 19% से नीचे होने वाली प्रत्येक 1 प्रतिशत कमी के लिये 150 किलो कैलोरीज प्रति किलोग्राम घटाने पर प्राप्त हो; यहां छोटे प्रमाणां (फ्रैक्शन्स) के लिये अनुपात के अनुसार कमी की जायेगी। नमी और राख दोनों का निर्धारण, भारतीय मानक निर्दिष्ट संख्या आई० एस० : 1350—1959 के संगत खंड के अनुसार, 60 प्रतिशत आपेक्ष नमी और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के बाद किया जायेगा।

5. कोककर कोयले में राख के प्रतिशत का निर्धारण आई०एस० : 1350—1959 के अनुसार हवा में सुखाने के बाद किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित नमी 20% से अधिक है तो यह निर्धारण आई०एस० : 1350—1959 के अनुसार 60% सापेक्ष नमी और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के बाद किया जायेगा।

6. उक्त वर्गीकरण भारतीय मानक निर्दिष्ट संख्या आई० एस० : 770—1964 के अन्तर्गत उल्लिखित बिटूमिनस या सब-बिटूमिनस कोयलों को छोड़कर अन्य कोयलों पर लागू नहीं होगा।

बी०—कीमते

## सारणी II—प्रकोकर कोयला

(प्रतिमत्त कीमत)

कोयले का ग्रेड	एक किलोग्राम का किलोकैलोरी में उपादेय ऊष्मा मूल्य	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला और वाशरी मिडलिंग	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
1. आसाम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों में कोयले का उत्पादन				
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
ग्रेड ए०	6200 से अधिक	137.50	136.50	135.00
ग्रेड बी०	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	122.50	121.50	120.00
ग्रेड सी०	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	107.50	106.50	105.00
ग्रेड डी०	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	92.50	91.50	90.00
ग्रेड ई०	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	77.50	76.50	75.00
ग्रेड एफ०	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	57.50	56.50	55.00
ग्रेड जी०	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	42.50	41.50	40.00
2. आन्ध्र प्रदेश राज्य (सिगरैसी कोलफील्ड्स में उत्पादित कोयला अवर्गीकृत				
		102.42	101.42	99.92
3. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में उत्पादित कोयला अवर्गीकृत				
				120.00
हाथ से निकाला गया				
				150.00

## सारणी III—कोकर कोयला

(प्रतिटन कीमत)

ग्रेड	राज्य का अंश	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
इस्पात ग्रेड I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	152.50	151.50	150.00
इस्पात ग्रेड II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	147.50	146.50	145.00
वाशरी ग्रेड I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	142.50	141.50	140.00
वाशरी ग्रेड II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	134.50	133.50	132.00
वाशरी ग्रेड III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	127.50	126.50	125.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	114.50	113.50	112.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं

## सारणी IV

(प्रतिटन कीमत)

ग्रेड	राज्य + नमी का अंश	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
अर्द्ध/बीकली कोकर ग्रेड I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	132.50	131.50	130.00
अर्द्ध/बीकली कोकर कोयला				
ग्रेड II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	120.50	119.50	118.00

## सारणी V—हार्डकोक

कोक का प्रकार	(प्रति टन कीमत)
1	2
1. उपोत्पाद हार्डकोक प्रीमियम	430.00
2. बोहाइव हार्डकोक प्रीमियम	380.00
3. बोहाइव हार्डकोक बढ़िया	280.00
4. बोहाइव हार्डकोक माध्यम	230.00

## सारणी VI—साफ्ट कोक

कोक का प्रकार	(प्रति टन कीमत)
1	2
	₹० पैसे
1. साफ्टकोक	110.00

नोट:—

- “रन ब्राफ साइन” कोयला खान से निकाला गया सभी आकारों का वह कोयला है जो तोड़ा हुआ और छना नहीं होता।
- “रन ब्राफ साइन” कोयले का जो अंश छनाई के समय छलनी में रह जाता है अथवा जो लदान के दौरान फार्क-शाबेल में उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहते हैं।
- “रन ब्राफ साइन” कोयले से स्टीम कोयला निकालने के बाद जो अंश बच जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाता है।
- यदि “रन ब्राफ साइन” कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक छनाई की जाती है तो उससे तीन भिन्न आकार अलग अलग आ जाते हैं। इसमें जो कोयला अवेष्टाकृत बड़े आकार के छिद्रों में उपर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा। जो अंश इन बड़े छिद्रों से गुजर कर दूसरे छोटे छेदों के ऊपर रह जाता है उसे रबल कोयला (फंकड़ कोयला) कहा जाएगा। तथा जो इन दोनों छलनियों से छनकर नीचे चला जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
- जिस “रन ब्राफ साइन” कोयले के सबसे बड़े आकार को, किसी अधिकतम घोषित सीमा तक सीमित रखने के लिए छाना या तोड़ा गया हो उसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
- कोयले के उन डेलों को हाथ से निकाले गए कोयले कहते हैं जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों की कोलियरियों के रन ब्राफ साइन कोयले से निकाले जाते हैं।
- जो कोककर कोयला और भण्ड कोककर कोयला सारणी I में दिए गए वर्गीकरण से बाहर रह जाता है उसे कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से कोककर कोयला माना जाएगा और उसका वर्गीकरण तदनुसार ही होगा।
- जब नमी का अंश “यथाप्राप्त” आधार पर—जैसा कि वाणरी में मिजिंग के आईएसएस: 1350-1959 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है—10 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो सारणी II में अधिसूचित मिजिंग की कीमत, यथानुपात भाग में, 10 प्रतिशत से ऊपर नमी के प्रत्येक एक प्रतिशत पर 1 रुपये की दर से कम हो जाएगी।
- जब कोककर कोयले का “उपायेय ऊष्मा मूल्य” प्रति किलोग्राम 6400 किलोग्राम कैलोरी से अधिक हो जाता है तो, सारणी II के अनुसार “ए” ग्रेड कोयले के लिए देय कीमत उस वृद्धि के प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए 1 रुपये की दर से बढ़ जाएगी जितने से वास्तविक “उपायेय ऊष्मा मूल्य” यथानुपात भाग में 6400 किलो कैलोरी से अधिक हुआ है।
- ऊपर निश्चित की गई खान मुहाना कीमतें “एफ० प्रो० प्रार० कोलियरी साइडिंग” कीमतें हैं किन्तु जहाँ कोयला अथवा कोक को सड़क द्वारा लम्बी दूरी तय करके खान मुहाने से लदान स्थल तक ले जाने के लिए कोई अलग भवसौता किया गया है अथवा किया जाता है तो खान मुहाने से इस प्रकार की छुलाई की लागत ऐसे समझौते के अनुसार मानी जाएगी।
- सारणी II, III और IV, की खान मुहाना कीमतों में यह प्रभाव शामिल नहीं है—काई रायल्टी या सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों अथवा अन्य निकायों द्वारा लगाया गया शुल्क, यदि कोई हो, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर।
- संबन्ध के निवारण के लिए एनडूद्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोलियरी मालिकों को यह अधिकार होगा कि वे उपर्युक्त सारणियों में उल्लिखित कीमतों में ऐसी रायल्टी, शुल्क, उत्पादशुल्क और बिक्रीकर के बराबर की धन राशि और जोड़ दें। वाणरी मिजिंग के मामले में जोड़ी जाने वाली धनराशि उस प्रकार के बराबर होगी जो उतने ही उपायेय ऊष्मा मूल्य वाले कच्चे कोयले पर लगाया जाता है।
- सारणी V में अधिसूचित हार्डकोक की खान मुहाना कीमतों तथा सारणी VI में अधिसूचित साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमतों में कोक तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर अथवा हार्डकोक या साफ्ट कोक पर लगाये गये उत्पाद शुल्क, रायल्टी, अन्यकर अथवा बिक्रीकर शामिल

नहीं है। कोयले की मालिकों को अधिकार होगा कि वे हार्डकोक और साफ्ट कोक के खरीदारों से, इन कोयलों के लिए अधिसूचित कीमतों के अलावा ऐसे उत्पाद शुल्कों, रायल्टी, अन्य करों और बिक्रीकर को धनराशि की बसुली करें। जब ये कर कोक तैयार करने के लिए उपयोग में लाये गए, कच्चे कोयले पर लगाए गए हों तो साफ्ट कोक और हार्डकोक के प्रतिटन पर बसुली करने योग्य रकम का विश्वव्यापी साफ्ट कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.35 में गुणा करके तथा हार्ड कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.50 से गुणा करके किया जाएगा।

13. अधिसूचित कीमतें भारत से बाहर निर्यात के लिए बेचे गए कोक या कोयले पर लागू नहीं होंगी।

14. कोयले को विशेष प्रकार का बनाने अथवा उसका परिष्कार करने के लिए वह प्रतिरिक्त रकम ली जा सकती है जो केना और उत्पादक मिलकर उक्त अधिसूचित कीमतों के अलावा देना और लेना तय करें।

15. सारणी V में हार्डकोक के लिए अधिसूचित कीमत तथा सारणी VI में साफ्ट कोक के लिए अधिसूचित कीमत छोटे प्रकार के या 12 मिमीमीटर प्रकार से कम कोक बीजों, कम ताप कार्बोनीकृत कोक, पेनेटाइज्ड कोक या ब्रिकेट्स पर लागू नहीं होंगी।

[सं० 28012/8/79-सी०ए०]

एम० पी० गुप्तानी, सहायक सचिव

## MINISTRY OF ENERGY

### (Department of Coal)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1979

S.O. 408(E).—In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order 1945, as continued in force by Section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines & Metals) No. S.O. 2465 dated the 24th July 1967 and the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 408 (E) dated the 1st August, 1975 the Central Government, with effect on and from the 17th July, 1979 hereby prescribes in Table below the classes and grades into which coal shall be classified and fixes in Tables II, III, IV, V and VI below the pit head prices at which coal or coke may be sold by colliery owners:—

TABLE I

S. No.	Class	Grade	Grade Specification
1	2	3	4
1.	Non-coking coal produced in all States other than Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.	A B C D E F G	Useful heat value exceeding 6200 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 5600 kilo-calories per kilogram but not exceeding 6200 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 4940 kilo-calories per kilogram but not exceeding 5600 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 4200 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4940 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 3360 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4200 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 2400 kilo-calories per kilogram but not exceeding 3360 kilo-calories per kilogram. Useful heat value exceeding 1300 kilo-calories per kilogram but not exceeding 2400 kilo-calories per kilogram.
2.	Non-coking coal produced in the States of Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.	—	Not graded.
3.	Coking Coal.	Steel Grade I Steel Grade II Washery Grade I Washery Grade II Washery Grade III Washery Grade IV	Ash content not exceeding 15 per cent. Ash exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent. Ash exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent. Ash exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent. Ash exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent. Ash exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4.	Semi-coking and weakly coking coals.	Semi-Coking I Semi-Coking II	Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent. Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.

#### Notes :—

1. Coking Coals are such coals as have been declared as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules or regulations made thereunder.

2. "Semi-coking Coals and "weakly coking coals" are such coals as were declared as 'blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'Semi-coking' or 'weakly-coking' coals by the Central Government.
3. Coals other than Coking or Semi-coking or weakly coking coals are non-coking coal.
4. "Useful Heat Value" is defined by the following formula:  

$$HU = 8900 - 138 \times (A + M)$$

Where Hu = Useful Heat value in Kilo Calories per kilogram.

A = Ash content in percentage.

M = Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2%, and volatile content less than 19% the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilo calories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19%, fractions pro rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard Specification No. IS : 1350—1959.
5. Ash percentage of Coking Coal shall be determined after air-drying as per IS : 1350—1959. If the moisture so determined is more than 20 per cent the determination shall be after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per IS : 1350—1959.
6. The above classifications shall not apply to coals other than Bituminous or Sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard Specification No. IS : 770—1964.

## B—PRICES

TABLE II—NON-COKING COAL

Grade of Coal	Useful heat value in kilo calories per kilogram	Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal and washery middlings	Run of Mine Coal
1	2	3	4	5
1. Coal produced in all States except Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.				
Grade A	Exceeding 6200.	Rs. P. 137.50	Rs. P. 136.50	Rs. P. 135.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200.	122.50	121.50	120.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600.	107.50	106.50	105.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940.	92.50	91.50	90.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200.	77.50	76.50	75.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360.	57.50	56.50	55.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400.	42.50	41.50	40.00
2. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields).				
	Ungraded	102.42	101.42	99.92
3. Coal produced in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.				
	Ungraded			120.00
	Handpicked			150.00

TABLE III—COKING COAL

Grade	Ash content	Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent.	152.50	151.50	150.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.	147.50	146.50	145.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.	142.50	141.50	140.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.	134.50	133.50	132.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.	Not exceeding 127.50	Not exceeding 126.50	Not exceeding 125.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.	Not exceeding 114.50	Not exceeding 113.50	Not exceeding 112.00

TABLE IV

Grade	Ash plus moisture content	Price per tonne of		
		Steam Coal and Rubble	Slack Coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi-coking Grade I	Not exceeding 19 per cent.	132.50	131.50	130.00
Semi-coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.	120.50	119.50	118.00

TABLE V—HARD COKE

Type of Coke	Price per tonne
1	2
	Rs. P.
1. By-product Hard Coke Premium	430.00
2. Beehive Hard Coke Premium	380.00
3. Beehive Hard Coke Superior	280.00
4. Beehive Hard Coke Ordinary	230.00

TABLE VI—SOFT COKE

Type of Coke	Price per tonne
1	2
	Rs. P.
1. Soft Coke	110.00

## Notes:

1. Run of Mine coal is Coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.
2. The fraction of the Run of Mine coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called Steam Coal.

3. The fraction that remains after steam coal has been removed from the Run of Mine coal is called slack.
4. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the larger apertures, shall be termed Seam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.
5. Run of Mine Coal which has been screened or crushed to limit the top size to any declared maximum limit shall be termed Slack Coal.
6. Hand picked coals comprise of lumps of coal picked out from the Run of Mine Coal of collieries in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.
7. Coking Coal, Weakly Coking Coal, Semi-Coking Coal which fall outside the classification shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classified accordingly.
8. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS : 1350—1959 of middlings at the washery and exceeds 10 per cent, the price of middlings notified in Table II, shall be reduced by Rs. 1/- for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro rata.
9. When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 kilocalories per kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Rs. 1/- for every 100 kilocalories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 kilocalories per kilogram, fraction pro rata.
10. Pithead prices fixed above are F.O.R. colliery siding prices, but where separate agreements for carrying coal or coke over long distances by road from the pithead to the loading point exist or are entered into, the cost of such carriage from pithead shall be governed by such agreements.
11. The pithead prices in Tables II and III and IV are exclusive of royalty and cesses, if any, levied by Government, local authorities or other bodies, duties of excise and sales tax.  
For removal of doubts, it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess, duties of excise and sales tax to the pithead prices specified in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be the amount payable on raw coal of the same useful heat value range.
12. The pit head prices of hard coke notified in Table V and of Soft Coke notified in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or Soft Coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amounts of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax from purchasers of Hard Coke and Soft Coke in addition to the prices notified for them. When the impost is on the raw coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of Soft Coke or Hard Coke shall be ascertained by multiplying the rates for raw coal by 1.35 for Soft Coke and 1.50 for Hard Coke.
13. Prices notified shall not apply to coke or coal sold for export outside India.
14. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the notified prices.
15. The prices notified in Table V for Hard Coke and Table VI for Soft Coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimetres size, low temperature carbonisation coke, pelletised coke or briquettes.

[No. 28012/8/79-CA]

S. P. GUGNANI, Joint Secretary,